



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 वैशाख 1940 (श0)
(सं0 पटना 429) पटना, शुक्रवार, 11 मई 2018

सं० अ०सं०क० 5-06/08के०प्रा०वि०/2017-4683

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

संकल्प

19 मार्च 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में समर्पित आवेदनों को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2017-18 एवं अनुवर्ती वर्षों में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की केन्द्रीय योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति पाने के योग्य परन्तु केन्द्र द्वारा सीमित कोटा होने के कारण छात्रवृत्ति लाभ से वंचित रह गये छात्र/छात्राओं को राज्य योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति के लाभ से अछादित करने के संबंध में ।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित केन्द्रीय पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वित्तीय वर्ष 2007-08 से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम चलायी जा रही है । जिसके अन्तर्गत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को कक्षा 11 से पी०एच०डी० तक निर्धारित कोटा के अनुरूप चयनोपरान्त अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर से छात्रवृत्ति दी जा रही है । अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य का कोटा निर्धारित होने के कारण बहुत सारे योग्य छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति लाभ से वंचित रह जाते हैं ।

2. अल्पसंख्यक समुदाय को शिक्षा के माध्यम से सशक्त करने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में समर्पित आवेदनों को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2017-18 एवं अनुवर्ती वर्षों में केन्द्रीय अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत केन्द्र द्वारा निर्धारित कोटा के अनुरूप चयनोपरान्त छात्रवृत्ति लाभ से वंचित योग्य छात्र/छात्राओं को राज्य योजना से छात्रवृत्ति लाभ प्रदान करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् से प्राप्त है ।

3. इस योजना की राशि मांग संख्या 30 के अन्तर्गत बजट मुख्यशीर्ष-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण उप मुख्यशीर्ष-04-अल्पसंख्यकों का कल्याण, लघु शीर्ष-277-शिक्षा, समूह शीर्ष-राज्य स्कीम के अन्तर्गत उप-शीर्ष-0101-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के विपत्र कोड संख्या-30-2225042770101 के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

4. अल्पसंख्यक छात्र/छात्रा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के वेबसाईट (Scholarships.gov.in) पर पूर्व के भांति ऑनलाईन आवेदन करेंगे । पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में लाभान्वित छात्रों को छोड़कर, योग्य परन्तु निर्धारित कोटा के कारण वंचित छात्र/छात्राओं की सूची अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त कर छात्रवृत्ति लाभ प्रदान की जायेगी । उक्त योजनान्तर्गत नवीन आवेदन करने वाले योग्य परन्तु छात्रवृत्ति लाभ से वंचित छात्रों को ही लाभान्वित किया जायेगा ।

5. यह शत-प्रतिशत राज्य योजना होगा एवं छात्रवृत्ति का भुगतान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के निर्धारित दर पर ही किया जायेगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सूची के आलोक में राशि का आकलन कर निकासी की गई राशि बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लि०, पटना भेजी जायेगी। बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लि०, पटना द्वारा सूची के आधार पर लाभार्थियों के खाते में RTGS/NIFT के माध्यम से अंतरित की जायेगी।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजकीय गजट में जन साधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रतिलिपि विशेष सचिव-सह-निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेजी जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मो०एस०आई० फैसल,
विशेष सचिव-सह-निदेशक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 429-571+100-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>